



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

No. 69]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009/पौष 22, 1930

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSA 22, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 121(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है तथा सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35कग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः :-

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1	2	3	4
1	डी पुरकाल यूथ डेवलपमेंट सोसायटी, पुरकाल गाँव, पो०आ० भगवंतपुर, देहरादून 248009 उत्तराखण्ड	बी टी टी पी(बस देम टू पुरकाल) योजना, युवा शक्ति, युवा किशोर शैक्षिक कार्यक्रम स्त्री शक्ति के लिए परियोजना [5.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित कीमत 7.00 करोड़ रुपये]	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 5.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 7.00 करोड़ रुपये ।

2.	श्री सत्य साईं ग्रामीण जागृति, साईं सदन, 551, सेक्टर-8 बी, चंडीगढ़-160018	श्री सत्य साईं जागृति विद्यामंदिर का माध्यमिक विद्यालय से उच्चतर विद्यालय के रूप में विस्तार ।) [कीमत 95.00 लाख रुपये]	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 95.00 लाख रुपये ।
3.	कृषि ग्राम विकास केन्द्र रुक्का- नेवोरी विकास, आरमंजी क्षेत्र, डाकखाना नेवोरी विकास, जिला -राँची, झारखंड-835217	सुरक्षित मातृत्व के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और शिशु स्वास्थ्य सहायता और एच आई वी-एडस के मामलों के प्रति जागरूकता [लागत 2.83 करोड़ रुपये]	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 2.83 करोड़ रुपये ।
4.	कृषि ग्राम विकास केन्द्र रुक्का- नेवोरी विकास, आरमंजी क्षेत्र, डाकखाना नेवोरी विकास, जिला -राँची, झारखंड-835217	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन-मॉडल वाटरशेड प्रबंधन और वनीकरण कार्यक्रम और ग्रामीण विकास के लिए कृषि सहायता [लागत 7.87 करोड़ रुपये]	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 7.87 करोड़ रुपये ।
5.	कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन इंडिया, वसाबता विहार, द्वार सं० 124-126(पुराना नं० 64-65) ग्रीनवेज रोड, राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई 600028 तमिलनाडु	ऋषि वैली ग्रामीण शिक्षा केन्द्र (लागत 1.5 करोड़)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 1.5 करोड़ रुपये ।
6.	भादुल कम्युनिटी वेलफेयर	अपंग व्यक्तियों के कल्याण हेतु	वर्ष 2008-09, से

	आर्गेनाइजेशन, ग्राम व डाकखाना भादुल, जिला बांकुरा पश्चिम बंगाल 722101	पूर्व नर्सरी से माध्यमिक विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा गरीब ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (लागत 48.00 लाख रुपये)	आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 48 लाख रुपये।
7.	इस्कान फूड रिलीफ फाउन्डेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू मुम्बई-400049	मध्य प्रदेश राज्य में विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन परियोजना (लागत 4.72 करोड़ रुपये प्रति वर्ष)	वर्ष 2008-09, से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 के लिए 4.72 करोड़ रुपये।
8.	इस्कान फूड रिलीफ फाउन्डेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू मुम्बई-400049	केन्द्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ में विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन परियोजना (लागत 9.03 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 9.03 करोड़ रुपये।
9.	महात्मा गांधी मिशन ट्रस्ट, एन-6, सिडको, औरंगाबाद-431003, महाराष्ट्र	"आदिवासी आरोग्य" आदिवासियों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (1.26 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित लागत 7.54 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 1.26 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 7.54 करोड़ रुपये।
10.	एन टी आर मेमोरियल ट्रस्ट, एन टी आर ट्रस्ट भवन रोड 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद	स्वास्थ्य देखभाल (लागत 51.54 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन

	500034 आन्ध्रप्रदेश		वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 51.54 करोड़ रुपये ।
11.	एन टी आर मेमोरियल ट्रस्ट, एन टी आर ट्रस्ट भवन रोड 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034 आन्ध्रप्रदेश	शिक्षा (लागत 9.90 करोड़)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 8.98 करोड़ रुपये ।
12.	एन टी आर मेमोरियल ट्रस्ट, एन टी आर ट्रस्ट भवन रोड 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034 आन्ध्रप्रदेश	शुद्ध पेय जल (लागत 35. करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 31.50 करोड़ रुपये ।
13.	अनबाल्या हैंडीकैप्ड रिहबिलिटेशन सेन्टर ट्रस्ट, बी टी एम काम्प्लेक्स, सेतु सलाई, टोन्डी, तिरुवदनाई(तालुक), रामनाथपुरम, जिला, तमिलनाडु-623409	मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय (लागत 1.86 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 1.86 करोड़ रुपये ।
14.	गर्ग बंशी सर्वजन कल्याण सेवा संस्थान, ग्राम सता, डाकखाना पुरुषोत्तमपुर, जयसिंहपुर, जिला	महिलाओं और कमजोर वर्ग, विकलांगों के लिए निरंतर रोजगार हेतु अकादमी की स्थापना (लागत 12.03 लाख रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की

	सुल्तानपुर, उत्तरप्रदेश-228001		अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 12.03 लाख रुपये ।
15.	शांतिलाल संघवी फाउन्डेशन, एफ पी 145, राम मंदिर रोड विले पार्ले(ईस्ट) मुम्बई-400057 महाराष्ट्र	आदिवासी अन्न आरोग्य शिक्षण योजना(ग्रामीण और आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन उपलब्ध करना) (1.95 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.70 करोड़ रुपये की लागत)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 1.95 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.70 करोड़ रुपये ।
16.	महिला उत्कर्ष संस्थान, ¼ वृंदावन कालोनी, बानगंगा, इंदौर, (मध्यप्रदेश)	बुजुर्ग लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और रखरखाव गतिविधियां (लागत 30.00 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 30.00 करोड़ रुपये ।
17.	जनसेवा फाउन्डेशन इंदुलाल काम्प्लेक्स, रुपी को-आप बैंक, के उपर नवी पेठ, एल बी एस रोड पुणे 411030	निर्माण और संचालन(i) छोटे ग्रामों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ग्रामीण हब(ii) वृद्धाश्रम का पुनर्निर्माण/विस्तार और(iii) आंखों की देखभाल के लिए मौजूदा ग्रामीण हस्पताल का विस्तार (लागत 2.00 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 2.00 करोड़ रुपये ।
18.	टी टाटा स्टील लिमिटेड, बाम्बे हाऊस, 24 होमी मोदी	टाटा स्टील ग्रोथ प्लान के तहत शहरों की सड़कों को चौड़ा करना एवं विस्तार करना	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले

	स्ट्रीट, मुम्बई-400001	(लागत 17.84 करोड़ रुपये)	वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 17.84 करोड़ रुपये ।
19.	प्रगुन जिंदल एजुकेशनल आर्गनाइजेशन, चिकाबिदराकालु ग्राम, तालुका नेलमंगला, दशनपुरा होबली, बंगलौर-560073	जिंदल प्री यूनिवर्सिटी कालेज का जिंदल रूरल कॉलेज के रूप में विस्तार (लागत 43.00 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 14.00 करोड़ रुपये ।
20.	नवजीवन चैरीटेबल ट्रस्ट, 602, शास्त्री हॉल, 292, जे दादाजी रोड, मुम्बई-400007, महाराष्ट्र	श्री नवजीवन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और वस्तु और वस्त्रों का वितरण (लागत 39.11 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 39.11 करोड़ रुपये ।
21.	आनंद ईसर एजुकेशनल चैरीटेबल ट्रस्ट, छापर रोड, छापर ग्राम, अहमदगढ़ मंडी, लुधियाना, पंजाब	नानकसर दशमेश पब्लिक स्कूल (लागत 18.51 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 18.51 करोड़ रुपये ।
22.	मदर फाउन्डेशन, चैरीटेबल ट्रस्ट, जे एन-2/65/ए 3 गुलमोहर सोसायटी, सेक्टर -	होली स्प्रिट आश्रम- एडस और कैंसर को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए मौजूदा 50 बिस्तर वाले अस्पताल का 100 बिस्तर वाले अस्पताल	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन

	9, वाशी , नवी मुम्बई-400703	में विस्तार (अनुसंधान और विकास इकाई के साथ) (लागत 24.24 करोड़ रुपये)	वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 24.24 करोड़ रुपये ।
23.	नांदेड मेडिकल फाउन्डेशन, जीजामाता अस्पताल , भवन प्रमिला भालेराव मार्ग, चिकलवाडी नांदेड-431601, महाराष्ट्र	नांदेड मेडिकल फाउन्डेशन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूशन और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (लागत 17.72 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 17.72 करोड़ रुपये ।
24.	कोहिनूर शिक्षण संस्था, द्वारा आर्ट्स कॉलेज, खुलताबाद, जिला औरंगाबाद-431001 महाराष्ट्र	वृद्धाश्रम का विस्तार (लागत 3.54 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 3.54 करोड़ रुपये ।
25.	इस्कान फुड रिलीफ फाउन्डेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू मुम्बई-400049	आन्ध्र प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन परियोजना (लागत 20 .74 करोड़ रुपये प्रति वर्ष)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 20.74 करोड़ रुपये ।
26.	टूगेदर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसायटी, फर्स्ट फ्लोर, 15 सी फेन्डस कालोनी(वेस्ट) नई दिल्ली-	प्रदूषण नियंत्रण के लिए सामुदायिक ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना (लागत 3.50 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की

	110065		अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 3.50 करोड़ रूपये ।
27.	दी एसोसिएशन आफ पीपल विद डिसएबिलिटी, छठा क्रास हचीसन रोड, हेनुर से हटकर लिंगराजपुरम, डाकखाना सेंट थामस टाऊन , बंगलोर 560084	क) प्रशिक्षण एवं रोजगार(ग्रामीण और शहरी) ग्रामीण शिक्षा बागवानी प्रशिक्षण इकाई ख) पुनर्वास और चलते फिरते उपस्कर (लागत 5.19 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 5.19 करोड़ रूपये ।
28.	जीसस एंड मेरी गुजरात सोसायटी, कान्वेंट आफ जीसस एंड मेरी, पो0 बा0 सं0 60, हलोल-389350, जिला पंचमहल, गुजरात	गली के बच्चों के लिए(बचाव कार्य) (लागत 99.75 लाख रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009- 10 और 2010- 2011 के लिए 99.75 लाख रूपये ।
29.	जीसस एंड मेरी गुजरात सोसायटी, कान्वेंट आफ जीसस एंड मेरी, शांति सदन, मरियमपुरा पेटलाद, जिला आनंद, गुजरात- 388450	विद्यालय का विस्तार(दूसरे तल और खेलकूद मैदान, गैराँज इत्यादि का निर्माण) (लागत 74.20 लाख रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009- 10 और 2010- 2011 के लिए 74.20 लाख रुपये।
30.	जीसस एंड मेरी गुजरात सोसायटी, कान्वेंट आफ जीसस एंड मेरी, पो0 बा0 सं0 31, पालनपुर, जिला बनासकांठ 385001, गुजरात	पालनपुर के एसबाड़पुरा ग्राम में सड़क, चहारदीवारी और प्रसाधन ब्लॉक का निर्माण तथा विद्यालय के आवती व्यय (लागत 31.24 लाख रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09,

			2009-10 और 2010-2011 के लिए 31.24 लाख रुपये ।
31.	जीसस एंड मेरी गुजरात सोसायटी, कॉन्वेंट आफ जीसस एंड मेरी, प्रेस रोड, खंभात, जिला आनंद, गुजरात-388620	छात्रावास का विस्तार, खेलकूद मैदान का निर्माण और फर्नीचर की खरीद (47.33 लाख रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 47.33 लाख रुपये ।
32.	जीसस एंड मेरी गुजरात सोसायटी, कॉन्वेंट आफ जीसस एंड मेरी, 22 कैप फतेहगंज प्रेस रोड, वड़ोदरा गुजरात-390002	मार्मा गोवा में लड़कियों के छात्रावास का विस्तार (लागत 20.00 लाख रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 20.00 लाख रुपये ।
33.	जीसस एंड मेरी गुजरात सोसायटी, सेवा निकेतन गोथाड़ा, तालुका सावली, जिला वड़ोदरा गुजरात-391773	विद्यालय का विस्तार, फर्नीचर और उपस्करों की खरीद (लागत 38.50 लाख रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 38.50 लाख रुपये ।
34.	स्व- रूपवर्धिनी, 22/1, मंगलवार पेठ, पारने चौक, पुणे 411011, महाराष्ट्र	झोपड़पट्टी के लड़कों एवं लड़कियों तथा महिलाओं का एकीकृत विकास बहुसुविधायुक्त प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण एवं विकास (लागत 1.45 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और

			2010-2011 के लिए 1.45 करोड़ रुपये ।
35.	भारतीय जैन संगठन, आठवां तल, मुथ्य चैम्बर्स-II, सेनापति बापट रोड, होटल सहारा के सामने, पुणे 411016	भारतीय जैन संगठन गुणता विकास शिक्षा परियोजना (बी जे एस-ई डी यू क्यू आई पी) (लागत 25.00 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 17.63 करोड़ रुपये ।
36.	अन्ना आनंददाई इल्लम पुडुर, अम्बथूर, चेन्नई-600053	सामुदायिक स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्र (लागत 5.47 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 2.5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 5.47 करोड़ रुपये ।
37.	विद्यासागर फाउन्डेशन फार एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विसिस , 74 बी, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	विद्यासागर अभिषेक बालिका विद्यालय का विस्तार (लागत 8.25 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 8.25 करोड़ रुपये ।
38.	लैंडोर सामुदायिक अस्पताल, मसूरी-248179, उत्तराखंड	लैंडोर सामुदायिक अस्पताल का विस्तार/पुनर्निर्माण (लागत 5.25 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात्

			2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 5.25 करोड़ रुपये ।
39.	दारुल-उलूम-जामिया सिद्धिकी संस्था संस्था पो0बा0 सं0 147, ग्राम रसूलपुरा, जिला अजमेर, राजस्थान-305024	विद्यालय भवन का निर्माण और विद्यालय के उपस्करों की खरीद (लागत 1.51 करोड़ रुपये)	वर्ष 2008-09, से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए 1.51 करोड़ रुपये ।

II. यह अधिसूचना क्रम सं0 7 पर उल्लिखित परियोजना या स्कीम की बाबत वित्तीय वर्ष 2008-2009 और 2009-10 के संबंध में दो वर्षों की अवधि के लिए और उक्त सारिणी की क्रम सं0 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 और 39 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों की बाबत वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-2010 और 2010-2011 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[सं. 1/2009/फा. सं. एन सी-274/17/2008]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O.121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the said National Committee, mentioned in column (2) of the Table below, and approves the eligible projects or schemes specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table, and also specifies in the column (4) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC for the period of approval, namely:-

TABLE

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	The Purkal Youth Development Society, Purkal village, P.O. Bhagwantpur, Dehradun 248-009, Uttarakhand.	Project for BTTP (Bus Them to Purkal) Scheme, Yuva Shakti, Young Adult Education Programme, Stree Shakti. [Cost Rs. 7.00 crore including a corpus fund of Rs. 5.00 crore.]	Rs. 7.00 crore including a corpus fund of Rs. 5.00 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.

2.	Sri Sathya Sai Gramin Jagriti, Sai Sadan, 551, Sector 8B, Chandigarh -160018.	Expansion of Sri Sathya Sai Jagriti Vidya Mandir from Middle School to High School. [Cost Rs. 95.00 lakh]	Rs. 95.00 lakh for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
3.	Krishi Gram Vikas Kendra, Rukka- Neori Vikas, Area Ormanjhi, Post Office Neori Vikas, District Ranchi, Jharkhand- 835 217.	Rural healthcare for safe motherhood and child health support and awareness generation on HIV-AIDs issues. [Cost Rs.2.83 crore.]	Rs.2.83 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
4.	Krishi Gram Vikas Kendra, Rukka- Neori Vikas, Area Ormanjhi, Post Office Neori Vikas, District Ranchi, Jharkhand- 835 217.	Natural Resource Management- Model Watershed Management & Afforestation programme and allied agricultural support for rural development. [Cost Rs. 7.87 crore]	Rs. 7.87 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
5.	Krishnamurthi Foundation India, Vasabta Vihar, Door No. 124-126 (old No.64-65), Greenways Road, Raja Annamalaipuram, Chennai 600 028, Tamilnadu.	Rishi Valley Rural Education Centre. [Cost Rs. 1.5 crore]	Rs. 1.5 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
6.	Bhadul Community Welfare Organisation, Village & PO Bhadul, District Bankura, West Bengal 722101.	Welfare for disabled persons. Free Education to students from Pre-nursery to Middle School standard. Vocational training to poor rural women. [Cost Rs. 48.00 lakh]	Rs. 48.00 lakh for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
7.	Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai - 400 049.	Mid day meal project for students in the State of Madhya Pradesh. [Cost Rs. 4.72 crore for years]	Rs. 4.72 crore for two financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009 and 2009-2010.
8.	Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai - 400 049.	Mid day meal project in the Union Territory of Chandigarh. [Cost Rs. 9.03 crore]	Rs. 9.03 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.

9.	Mahatma Gandhi Mission Trust, N-6, CIDCO, Aurangabad - 431003, Maharashtra.	“ADIWASI AAROGYA”- integrated health care programme for tribal. [Cost Rs. 7.54 crore including a corpus fund of Rs. 1.26 crore]	Rs. 7.54 crore including a corpus fund of Rs. 1.26 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
10.	NTR Memorial Trust, NTR Trust Bhavan, Road 2, Banjara Hills, Hyderabad 500034. Andhra Pradesh.	Health Care. [Cost Rs. 51.54 crore]	Rs. 51.54 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
11.	NTR Memorial Trust, NTR Trust Bhavan, Road 2, Banjara Hills, Hyderabad 500034. Andhra Pradesh.	Education. [Cost Rs. 9.90 crore]	Rs. 8.98 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
12.	NTR Memorial Trust, NTR Trust Bhavan, Road 2, Banjara Hills, Hyderabad 500034. Andhra Pradesh.	Safe drinking water. [Cost Rs. 35.00 crore]	Rs. 31.50 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
13.	Anbalaya Handicapped Rehabilitation Centre Trust, BTM Complex, Sethu Salai, Tondi, Thiruvadanai (Taluk), Ramanathapuram District, Tamilnadu - 623 409.	Special school for mentally retarded children. [Cost Rs. 1.86 crore]	Rs. 1.86 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
14.	Garga Bansi Sarvan Kalyan Sewa Sansthan, Village Sata, PO Pursottampur, Jayasinghpur, District Sultanpur, Uttar Pradesh -228001.	Establishment of Academy of Sustained Employment for Handicapped, Women and Weaker section. [Cost Rs.12.03 lakh]	Rs.12.03 lakh for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
15.	Shantilal Shanghvi Foundation, F.P. 145, Ram Mandir Road, Vile Parle (East), Mumbai -400057, Maharashtra.	Aadivasi Anna Arogya Shikshan Yojana (providing education, health & food for tribal & rural childrens). [Cost Rs. 10.70 crore including a corpus fund of Rs. 1.95 crore]	Rs. 10.70 crore including a corpus fund of Rs. 1.95 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
16.	Mahila Utkarsh Sansthan, ¾ Vrindavan Colony, Banganga, Indore, (Madhya Pradesh.	Health care and protection activities for elderly persons. [Cost Rs. 30.00 crore]	Rs. 30.00 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.

17.	Janaseva Foundation, Indulal Complex, Above Rupee Co-op Bank, Navi Peth, L.B.S Road, Pune 411030.	Construction & running of (i) rural hub for senior citizens from small villages, (ii) Renovation/extension of old age home and (iii) extension of the existing rural hospital for ophthalmic care. [Cost Rs. 2.00 crore]	Rs. 2.00 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
18.	The Tata Steel Limited, Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai 400 001.	Widening and strengthening of Roads in Town under Tata Steel Growth plan. [Cost Rs. 17.84 crore]	Rs. 17.84 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
19.	Pragun Jindal Educational Organisation, Chikabidarakallu Village, Taluka Nelmangala, Dasanpura Hobli, Bangalore-560073.	Expansion of Jindal Pre University College to Jindal Rural college. [Cost Rs. 43.00 crore]	Rs. 14.00 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
20.	Navjeevan Charitable Trust, 602, Shastri Hall, 292, J. Dadaji Road, Mumbai 400 007, Maharashtra.	Shree Navjeevan. Vocational Training Programme, Medical camps and good & cloth distribution. [Cost Rs. 39.11 crore]	Rs. 39.11 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
21.	Anand Isher Educational Charitable Trust, Chhappar Road, Village Chhappar, Ahmad Garh Mandi, Ludhiana, Punjab.	Nanaksar Dashmesh Public School. [Cost Rs. 18.51 crore]	Rs. 18.51 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
22.	Mother Foundation Charitable Trust, JN-2/65/A 3, Gulmohur Society, Sector 9, Vashi, Navi Mumbai -400703.	Holy Spirit Ashram – expansion of the existing 50 beds general hospital with 100 beds with special consideration of AIDS and Cancer (with R& D unit). [Cost Rs. 24.24 crore]	Rs. 24.24 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
23.	Nanded Medical Foundation, Jijamata Hospital, Building Pramila Bhalerao Marg, Chiklawadi Nanded - 431601, Maharashtra.	Nanded Medical Foundation Cancer Research Institution and Super Specialty Hospital. [Cost Rs. 17.72 crore]	Rs. 17.72 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.

24.	Kohinoor Shikshan Sanstha, C/o Arts College, Khultabad, District Aurangabad - 431001. Maharashtra.	Expansion of old age home. [Cost Rs. 3.54 crore]	Rs. 3.54 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
25.	Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai - 400 049.	Mid day meal project in Andhra Pradesh. [Cost Rs. 20.74 crore]	Rs. 20.74 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
26.	Together Educational and Social Development Society, First Floor, 15 C Friends Colony (West), New Delhi - 110065.	Community Solid Waste Management Project for Pollution Control. [Cost Rs. 3.50 crore]	Rs. 3.50 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
27.	The Association of People with Disability, 6 th Cross Hutchins Road, Off Hennur, Lingarajapuram, St. Thomas Town Post, Bangalore 560 084.	a) Training and employment (urban & rural). Rural Education. Horticulture Training Unit. b) Rehabilitation & Mobility aids. [Cost Rs. 5.19 crore]	Rs. 5.19 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
28.	Jesus and Mary Gujarat Society, Convent of Jesus and Mary, P.B. No.60, Halol - 389350, Panchmahal District, Gujarat.	Street Children (Rescue work). [Cost Rs. 99.75 lakh]	Rs. 99.75 lakh for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
29.	Jesus and Mary Gujarat Society, Convent of Jesus and Mary, Shanti Sadan, Mariampura Petlad. District Anand, Gujarat - 388 450.	Expansion of school (construction of IInd floor and play field, garage etc). [Cost Rs. 74.20 lakh]	Rs. 74.20 lakh for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.

30.	Jesus and Mary Gujarat Society, Convent of Jesus and Mary, P.B. Mo.31, Palanpur, Banaskanta District - 385001, Gujarat.	Construction of Road, Compound wall & toilet block and recurring expenditure of school at Esbipura village, Palanpur. [Cost Rs. 31.24 lakh]	Rs. 31.24 lakh for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
31.	Jesus and Mary Gujarat Society, Convent of Jesus and Mary, Press Road, Khambhat, Anand District - 388 620, Gujarat.	Extension of Hostel, construction of play ground and purchase of furniture. [Cost Rs. 47.33 lakh]	Rs. 47.33 lakh for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
32.	Jesus and Mary Gujarat Society, Convent of Jesus and Mary, 22 Camp Fatehgunj, Vadodara 390002.	Extension of girls hostel at Marna, Goa. [Cost Rs. 20.00 lakh]	Rs. 20.00 lakh for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
33.	Jesus and Mary Gujarat Society, Sevaniketan Gothada, Ta. Savli, District Vadodara, Gujarat - 391773.	Extension of school and purchase of furniture and equipment. [Cost Rs. 38.50]	Rs. 38.50 lakh for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
34.	Swa-Roopwardhinee, 22/1, Mangalwar Peth, Parge Chowk, Pune 411011, Maharashtra.	Integrated Development of boys, girls and women from slum dwellers Construction and Development of a multifaceted training centre. [Cost Rs.1.45 crore]	Rs.1.45 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.
35.	Bharatiya Jain Sanghatana, 8 th Floor, Muttha Chambers -II, Senapati Bapat Road, Opposite Hotel Sahara, Pune 411016.	Bharatiya Jain Sanghatana Educational Quality Improvement Project (BJS-EDUQIP). [Cost Rs. 25.00 crore.]	Rs. 17.63 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.

36.	Anna Anadhai Illam, Pudur, Ambathur, Chennai – 600 053.	Integrated Health Center for Community Health and Rehabilitation. [Cost Rs. 5.47 crore.]	Rs. 5.47 crore including a corpus fund of Rs.2.50 crore for three financial years commencing with 2008-2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
37.	Vidyasagar Foundation for Education, Research, Development & Social Services, 74B, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Kolkata, West Bengal.	Expansion of Vidyasagar Abasik Balika Vidyalaya. [Cost Rs. 8.25 crore]	Rs. 8.25 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
38.	Landour Community Hospital, Mussoorie –248179, Uttarakhand.	Expansion/ Renovation of Landour community hospital. [Cost Rs. 5.25 crore.]	Rs. 5.25 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.
39.	Darool-Uloom-Jamia- Siddiqiyah Sikshan Sanstha Post Box No.147, Village Rasoolpura, District Ajmer, Rajasthan – 305024.	Construction of School building and purchase of school equipments. [Cost Rs.1.51 crore]	Rs. 1.51 crore for three financial years commencing with 2008- 2009 i.e. 2008- 2009, 2009-2010 and 2010-2011.

II. This notification shall remain in force for a period of two years in relation to financial years 2008-2009 and 2009-2010 in respect of project or scheme mentioned at serial number 7 and for a period of three years in relation to financial years 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 and 39 of the said Table.

[No. 1/2009/F. No. NC-274/17/2008]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)